

COVID-19

से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

एक चीनी चिकित्सक के
मुताबिक कोरोनावायरस
- का इलाज है
एक कटोरी लहसुन



सच

ऐसी जानकारी का
कोई वैज्ञानिक प्रमाण
नहीं है।



COVID-19

से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

यदि आप बिना किसी असुविधा के **10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं**, तो आपको COVID-19 का संक्रमण नहीं है।



सच

बिना किसी असुविधा के 10 सेकंड से अधिक समय तक अपनी सांस रोककर रखना यह साबित नहीं करता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं।



COVID-19 से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

विटामिन-सी के भरपूर
सेवन से कोरोना
संक्रमण को ठीक करने
में मदद मिल सकती है



सच

विटामिन-सी के नियमित
सेवन से प्रतिरोधक क्षमता
अवश्य बढ़ती है। लेकिन,
इसके अत्यधिक सेवन की
सलाह नहीं दी जाती है



COVID-19 से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

वायरस कुछ घंटों तक
जीवित रहता है



सच

अध्ययनों से पता चलता है
कि कोरोना वायरस सतहों
पर कुछ घंटे से लेकर कई
दिनों तक बने रह सकते हैं।
यह अलग-अलग स्थितियों
(जैसे सतह, तापमान या
वातावरण की आर्द्रता) में
भिन्न हो सकता है



COVID-19 से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि करेले का रस कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है



सच

ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है



COVID-19 से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरे सरकार



झूठ

मुझे अपने पालतू जानवर
से COVID-19 का
संक्रमण हो सकता है



सच

वैसे हांगकांग में एक कुत्ते के
संक्रमित होने की सूचना है।
लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं
है कुत्ता, बिल्ली या किसी
पालतू जानवर से
COVID-19 का संक्रमण
फैल सकता है



COVID-19

से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

गले को गीला रख
कर कोरोना के
संक्रमण से बचा जा
सकता है



सच

इस दावे का कोई
वैज्ञानिक प्रमाण
उपलब्ध नहीं है



COVID-19

से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरे सरकार



झूठ

ऊष्मायन अवधि
5 दिनों तक है



सच

"ऊष्मायन अवधि" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए ऊष्मायन अवधि 1-14 दिनों तक का है।

COVID-19 से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

एंटीबायोटिक्स नए
कोरोनोवायरस के संक्रमण
रोकने और इलाज में प्रभावी हैं?



सच

नहीं, इससे वायरस के संक्रमण
का इलाज नहीं होता, यह सिर्फ
जीवाणुओं से हुए संक्रमण का
इलाज है। नया कोरोनावायरस
(2019-nCoV) एक वायरस है और
इसलिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग
इसकी रोकथाम या उपचार में नहीं
किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर
आपको 2019-nCoV के लिए
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो
आपको बैक्टीरिया के सह-संक्रमण से
बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया
जा सकता है।

COVID-19 से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई

my
GOV
मेरी सरकार



झूठ

नया कोरोना वायरस बुजुर्गों
या बच्चों को प्रभावित करता
है, युवाओं को नहीं



सच

सभी उम्र के लोग इस
वायरस (nCoV-2019) से
संक्रमित हो सकते हैं। बुजुर्ग
और पहले से कमजोर सेहत
(जैसे कि अस्थमा, मधुमेह,
दिल के मरीज) वाले
संक्रमण से जल्द ग्रस्त हो
अत्यधिक बीमार हो जाते हैं।